



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259832
CG-DL-E-01012025-259832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1075]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 1075]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा.सं. 18-12/4461-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, स्वतंत्रता सेनानी स्कूल ऑफ नर्सिंग, पहली मंजिल, अग्निहोत्री आई अस्पताल, तायल गार्डन, हिसार, जिला हिसार-125001 (हरियाणा) हरियाणा राज्य सरकार तथा हरियाणा नर्सिंग एंड नर्स-मिडवाइक्स कौंसिल द्वारा एएनएम तथा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार, कमरा संख्या 102, प्रथम तल, नया हरियाणा सचिवालय भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017 को संबोधित नोटिस संख्या 18-12/4461-आईएनसी (52721) दिनांक 26.02.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति स्वतंत्रता सेनानी स्कूल ऑफ नर्सिंग, पहली मंजिल, अग्निहोत्री आई अस्पताल, तायल गार्डन, हिसार, जिला हिसार-125001 (हरियाणा) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, स्वतंत्रता सेनानी स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी स्वतंत्रता सेनानी स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 05.08.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम तथा जीएनएम पाठ्यक्रमों का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से स्वतंत्रता सेनानी स्कूल ऑफ नर्सिंग, पहली मंजिल, अग्निहोत्री आई अस्पताल, तायल गार्डन, हिसार, जिला हिसार—125001 (हरियाणा) से एएनएम तथा जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल हरियाणा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./837/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F.No. 18-12/4461-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—Whereas, **Swatantarta Sainani School Of Nursing** situated at **1st Floor Agnihotri Eye Hospital, Tyal Garden, Hisar, Distt.- Hissar, Pin Code- 125001, Haryana** is recognized by State Government of Haryana and Haryana Nurses and Nurse-Midwives Council to conduct ANM and GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-12/4461-INC (52721) dated **26/02/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Haryana, R.No. 102, 1st Floor, New Haryana Secretariat Building, Sec – 17, Chandigarh – 160017 was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Swatantarta Sainani School Of Nursing** situated at **1st Floor Agnihotri Eye Hospital, Tyal Garden, Hisar, Distt.- Hissar, Pin Code- 125001, Haryana**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Swatantarta Sainani School of Nursing**. Even the institution **Swatantarta Sainani School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 05/08/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM and GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of ANM and GNM from **Swatantarta Sainani School Of Nursing** situated at **1st Floor Agnihotri Eye Hospital, Tyal Garden, Hisar, Distt.- Hissar, Pin Code- 125001, Haryana**. Shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh. Shall be entitled to be registered only in the State of Haryana.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./837/2024-25]